
BIHAR SPONGE IRON LIMITED

REGISTERED OFFICE & PLANT : UMESH NAGAR, CHANDIL-832401, DISTT. SARAIKELA- KHARSAWAN, JHARKHAND
Ph. +91 9955542302 E-mail: companysecretary@bsil.org.in / bsilchandil@gmail.com / Web : bsil.org.in
CIN: L27106JH1982PLC001633

Date: 15th January, 2026

To,
The Manager Listing
BSE Limited
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 500058

Subject: Publication of Notice for one share transfer deed received under special window open period for 100 shares

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Company has published the enclosed Notice, in newspapers – Financial Express (English) and Naya India (Hindi), Ranchi edition dated Thursday, 15th January, 2026.

The same shall be available on Company's website at www.bsil.org.in.

The above is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bihar Sponge Iron Limited

Vimal Prasad Gupta
Company Secretary &
Compliance Officer
FCS 6380

Encl.: As above

BIHAR SPONGE IRON LIMITED
CIN: L27106JH1982PLC001633
Registered Office: Umesh Nagar, Chandil,
Dist. Saraikela-Kharsawan, Jharkhand-832401
Ph.: +91 9955542302 **E-mail:** companysecretary@bsil.org.in
Website: www.bsil.org.in
NOTICE

In reference to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/ P/CIR/2025/97 dated 2nd July 2025, a special window was open for a period of six months from 7th July, 2025 to 6th January, 2026 to facilitate transfer requests of physical shares of Transferor Deed which were originally lodged before 1st April, 2019 but were rejected/ returned/ not attended due to deficiency in the documents/process or otherwise.


In response to above one Transfer Deed having 100 shares is received by our RTA dated 23-12-2025 with following details:

Name of Transferor – VR. S. Vasantha, Folio No. 93965, Certificate No. 55752, Distinctive Nos. 28913101 – 28913200, Name of Transferee – Indra Kumar Bagri.

Public/Shareholders are hereby informed that if any one has any objection in above transfer, please intimate in writing with proof to our RTA- M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd, Beetal House, 3rd Floor, 99, Madanji, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062 at beetalrta@gmail.com or to the Company at companysecretary@bsil.org.in within 10 days from the publication of this notice otherwise transfer will be made in favour of transferee.

For Bihar Sponge Iron Limited
Sd/-
Vimal Prasad Gupta
Company Secretary & Compliance officer

Date: 14.01.2026
Place: New Delhi

 केनरा बैंक (A Govt. of India Bank)		DEMAND NOTICE		Regional Office, Haldwani, Kusrumkhura, Near Ballaji Banquet Hall, Chennpur, Haldwani, Email : recrohld@canarabank.com	
NOTICE ISSUED UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002.					
The borrower, co-borrowers and guarantors mentioned below has availed credit facilities From Canara Bank and secured by way of mortgage of under mentioned property. As the borrower / Co-Borrower / Guarantor failed to adhere to terms and conditions of respective loan agreement and had become irregular and classified as NPA as per RBI guidelines. The bank intends to enforce the said properties mortgaged by you and issued demand Notice under registered post /speed post has been received/return undelivered Hereby borrower /co-borrower /Guarantor are called upon to pay the amount mentioned below with contractual rate of interest, costs, charges etc thereon within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned will be constrained to initiate proceedings u/s 13(4) of the SARFAESI act against the mortgaged property mentioned below to realize the amount due to Canara Bank Further you are prohibited U/s 13(13) of the said act from transferring the said secured asset either by way of sale / lease or otherwise. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.					
S. No.	Name of Branch/Borrower /Mortgagor/Gurantor	Details of Mortgaged Property	Nature of Loan/s	Date of Demand Notice	Amount Due As Per Demand Notice
1.	Branch: Bazpur Borrower/Mortgagor: Mr. Gurpreet Singh S/o Amrik Singh, R/o- Ward No. 2, Idgaha, Bazpur, Udhamsingh Nagar Uttarakhand-262401, Guarantor: Mr. Rimpal Singh S/o Mr. Tarsem Singh, R/o- House No. 276, Ward 02, Near Bala Ji Inter Praizer, Gaudhi Nagar, Bazpur, Uttarakhand- 262401.	Residential House in the name of Sh. Gurpreet Singh S/o Shri Amrik Singh situated at Khata No 360, Khaska No. 407/5 Min, area measuring (54x60=3240 Sq. ft) or 301.115 Sq.mt village Mundiya Pistaar, Tehsil – Bajpur, Udhamsingh Nagar, Uttarakhand. Bounded as below:- North- Rasta 45 feet Wide, South- Rasta 14 Feet Wide, East- Rasta 19 Feet Wide, West- Property of Umesh Kumar. Name of Title Holder: Mr. Gurpreet Singh S/o Mr. Amrik Singh	Housing Loan	24.12.2025 Date of N.P.A	Rs. 13,73,144.58 Rupees Thirteen Lakh Seventy Three Thousand One Hundred Forty Four and Fifty Eight paisa Only)
2.	Branch: Haldwani Borrower: Stuthi Minerals Pvt. Ltd. C/o Mr. Dinkar Sootha, R/o- Haripur Tularam, Goraparav Haldwani, Distt. Nainital- 263139, Guarantor/Director: 1. Mahesh Joshi, R/o- A-2/86 Ashirwad Apartment, Paschim Vihar, Janakpur, New Delhi – 110063, 2. Sharik Rahman Khan.S/o Mojit Khan, R/o- House No. D-73 Sector 50, Gautam Buddha Nagar, Noida - 201301, 3. Sh. Bhupesh Joshi, S/o Mr. Khyial Ram Joshi R/o- Tewari Khan, Kasar devi, Almora uttarakhand -263101, 4. Mr. Fiza Durrani D/o Sh. Sardar Abdul Majeed Durrani, R/o- House No-D-73 Sector 50, Gautam Buddha Nagar, Noida-201301.	Residential Property on Khaska No. 75 Min. admeasuring area 6800 sq. ft. or 631.97 sq. mtr. in Khatauli no. 00203 varga 1 ka, Village Kamulhanjia Gaur, Tehsil Haldwani, District Nainital, Bounded as below:-North- Landi of Diger Singh Mehra, South- 20 Ft. wide rasta, East- 25 ft. wide way to Bhagwanpur Gaon, West- Land of Other person. CERSAI/Asset Id- 200075606983	CC/Working Capital	23.12.2025 Date of N.P.A 21.12.2025	Rs. 1,84,42,243.18 (Rupees One Corer Eighty Four Lakh Four Two Thousand Two Hundred Forty Three and Paise eighteen Only)

Loan Account No. and Name of Borrower(s)/ Co- Borrower(s)/ Guarantor(s)/Legal Heir(s)/Legal Rep.	Date of Demand Notice Amount As On Date	Type of Possession (Under Constructive/ Physical)	Reserve Price, Earnest Money
HL28CHLONS000005030061/ LA28VLLONS000005072301/ AP-10054847& AP-10167842 Mr./ Mrs. Bharti W/o Anil Kumar, Mr./ Mrs. Anil Kumar S/o Ram Dayal	15.10.2024 Rs. 1054895/- (Rupees Ten Lakh Fifty Four Thousand Eight Hundred Ninety Five Only)	Symbolic Possession	Rs. 8,50,000/- Rs. 85,000/-
Description Of Property: All Piece And Parcel Of Property Comprising Of A Khewat/Khata No. 144 Bake Vill- Semari Po- Semari Tehsil & District Agr Part Of Pradesh -283125 BOUNDARY:- East-Other Property,West- 18 Feet Wide Road,North-Plot No-13,South-House Of Remainin	12.09.2024 Rs.1542002/- (Rupees Fifteen Lakh Forty Two Thousand Two Only)	Symbolic Possession	Rs. 16,00,00,000/- Rs. 1,60,00,000/-
LA11CLLONS000005050812/ AP-10111696 MR./ MRS. SHITAL W/O SUNIL, MR./ MRS. SUNIL S/O RANVIR SINGH	12.11.2024 Rs.11,72,512/- (Rupees Eleven Lakh Seventy Two Thousand Five Hundred Twelve Only)	Symbolic Possession	Rs. 16,00,000/- Rs. 1,60,000/-
Description Of Property: All Piece And Parcel Of Property Comprising Of A Khewat/Khata No. 90/93, Mu No. 20, Kila No. 1/1(1-1) (8-0/-), 11/1(4-6), Mu No. 21 Kila No. 5(8-0), 6(8-0), 15/1(3-15), Having An Area Of I Kanal 15 Marie, Situated At Kanwaka, Teh Hodal, Dist Palwal BOUNDARY:- East-N/A, West- N/A, South-N/A, North-N/A	12.06.2024 ₹ Rs. 9,19,611/- (Rupees Nine Lakh Nineteen Thousand Six Hundred Eleven Only)	Symbolic Possession	Rs. 10,00,00,000/- Rs. 1,00,00,000/-
LA14VLLONS000005083183/AP-10197770 MRS. SONAM W/O MAN SINGH TOMAR, MR. MAN SINGH TOMAR S/O JATANSWARUP	12.04.2024 Rs.1188356.46/- (Rupees Eleven Lakh Eighty Eight Thousand Three Hundred Fifty Six Paise Four Six Only)	Symbolic Possession	Rs. 20,36,000/- Rs. 3,03,600/-
Description Of Property: All Piece And Parcel Of Property comprising of land whose admeasuring area is 1782 sq. feets, or 165 sq. meters, carved out of Khata No. 293, Part of Gata No.633, situated at House No. 75, Gram Fakana, Tehsil Sikandrabad District Bulandshar, U.P., BOUNDARY:- East-House Of Kishan Kumar,West-Gher of Mangesh, North-15ft wide road,South-House of Bhola	06.02.2024 ₹ Rs. 9,19,611/- (Rupees Nine Lakh Nineteen Thousand Six Hundred Eleven Only)	Symbolic Possession	Rs. 10,00,00,000/- Rs. 1,00,00,000/-
LA11CLLONS000005047755 & AP-10108452 MR./ MRS. ANJALI, MR./MRS. RAMESHM, MRS. VIKASH, MR./MRS. NARENDER	12.06.2025 Rs. 2393898/- (Rupees Twenty-Three Lakh Ninety-Three Thousand Eight Hundred Ninety-Eight Only)	Physical Possession	Rs. 22,00,000/- Rs. 2,20,000/-
Description Of Property: All Piece And Parcel Of All The Piece And Parcel Of Property Comprising Of A Khewat/khata No. 58/7 Mu No. 20 Kila No. 21 (8-0) & Mu No. 21, Kila No. 13 (8-0), Having an Area Of 343 Sq Yards, Situated At Tikari Gurgar Teh & Dist Palwal, Hereinafter Referred To As The "said Property", Boundary:- East: House Of Hem Chand West: Property Of Sumrat North Road South: House Of Prakash & Others	12.04.2024 Rs.1188356.46/- (Rupees Eleven Lakh Eighty Eight Thousand Three Hundred Fifty Six Paise Four Six Only)	Symbolic Possession	Rs. 20,36,000/- Rs. 3,03,600/-
HL11CHLONS000005036988/AP-10076724 MR./ MRS. GURPREET KAUR W/O PARAN PAL SINGH, MR./ MRS. PARAN PAL SINGH S/O TARVINDER SINGH,	12.06.2025 Rs. 2393898/- (Rupees Twenty-Three Lakh Ninety-Three Thousand Eight Hundred Ninety-Eight Only)	Physical Possession	Rs. 22,00,000/- Rs. 2,20,000/-
Description Of Property: All piece and parcel of propo no 36, area measuring 45 sq. Yards i.e. 37.626 sq. Meters, part of Khata no 64/2, 1st floor & 2nd floor with roof/terrace right, Vill-Hastal colony known as Mohan Garden block K-1 Uttar Nagar, New Delhi 110059 alongwith proportionate undivided right of the land under the said property, with common staircase and passage BOUNDARY:-East- Road 20 Feet, West- Portion of Property, North- Road 20 Feet, South- Portion of Property	06.02.2024 ₹ Rs. 9,19,611/- (Rupees Nine Lakh Nineteen Thousand Six Hundred Eleven Only)	Symbolic Possession	Rs. 10,00,00,000/- Rs. 1,00,00,000/-
LA11VLLONS000005070297 / AP-10116868 MR./ MRS. SUMAN, MR./ MRS. DINESH KUMAR	12.04.2024 Rs.1188356.46/- (Rupees Eleven Lakh Eighty Eight Thousand Three Hundred Fifty Six Paise Four Six Only)	Symbolic Possession	Rs. 20,36,000/- Rs. 3,03,600/-
Description Of Property: All Piece And Parcel Of Property area measuring 140 Sq yds part of Khata /Khwat no 58/70 Mu no 20 Kila No 21(8-0),Situated at Tikari Gurgar Tehsil and District Palwal. Boundary: North-N/A, South-N/A, East-N/A, West-N/A	12.04.2024 Rs.1188356.46/- (Rupees Eleven Lakh Eighty Eight Thousand Three Hundred Fifty Six Paise Four Six Only)	Symbolic Possession	Rs. 20,36,000/- Rs. 3,03,600/-
LA11VLLONS000005076651/ AP- 10180006 MR./ MRS. MUKESH, MR./ MRS. OMVEER	12.04.2024 Rs.1188356.46/- (Rupees Eleven Lakh Eighty Eight Thousand Three Hundred Fifty Six Paise Four Six Only)	Symbolic Possession	Rs. 20,36,000/- Rs. 3,03,600/-
Description Of Property: All Piece And Parcel Of Khewat Khata No 519/545 Mu No 18 Kila No 24/2(4-15)25/1(3-3) Mu No 62 Kila No 14/2(4-5)17(8-0) , Waka Siwana Moja Phulwari Tehsil & Dist Palwal, Haryana 121102 , Haryana BOUNDARY:- East-Road 15 Ft West-Property Of Bisambar, North-Property Of Mohan, South-Property Of Gajraj,	12.04.2024 Rs.1188356.46/- (Rupees Eleven Lakh Eighty Eight Thousand Three Hundred Fifty Six Paise Four Six Only)	Symbolic Possession	Rs. 20,36,000/- Rs. 3,03,600/-

L11CHLNS00000502886& L1A11CLLNS000005030392/ AP-10050345 & AP-10052037 Mr./ MRS. SUMAN DEVI, Mr./ MRS. HAWA SINGH	09-Aug-2024 Rs.1192436/- (Rupees Eleven Lakhs Ninety Two Thousand Four Hundred Thirty Six Only)	Symblc Possession	Rs. 11,00,000/- Rs. 1,10,00,00/-
Description Of Property: All Piece and Parcel of Khawat no. 1256 Khata no. 1318 Khasra no. 71/1(5-17) Ka 5/226 Bhag Bhagda rakba 2 Marle 6 sarsai,,khwat no 1257 khata no. 1319 khasra71/2(1-519) Ka 47/2142 Bhag Barkar Rakba 2 Marle 6 Sarsai, totat, Muntikla Rakba 5 Marle 6 sarsai Mauja Bapoli, Tehsil Bapoli, Dist. Panipat Haryana-132104 BOUNDARY:- East- Land of Pitamda West-Road, North- Property of Madan, South-Property of Maha Singh,			
L111RNLNS000005075450 & L1A11VLLNS000005096406/ AP-10180365 & AP-10227011 Mr./ Mrs. Attri Bhati W/o Baldev, Mr./ Mrs. Baldev S/o Sevaram, Mr./ Mrs. Mohan S/o Sevaram	15.10.2024 Rs.1746150/- (Rupees Seventeen Lakh Forty Six Thousand One Hundred Fifty Only)	Symblc Possession	Rs. 15,00,000/- Rs. 1,50,00,00/-
Description Of Property: All Piece And Parcel Of Khawat No 15 Khata No 20 Mu No 5 Kila No 5/1/2 (2-8) 5/3 (2-17) Area 500 s Yard, Aaraji Waha Mouja Hidayatpur Tehsil Palwal Haryana, BOUNDARY:- East-Property Of Narayan, West-Road 30 Ft, North-Property Of Shakuntala, South-Property Of Nihir			
<p>Terms and conditions: 1)</p> <p>The prescribed Tender/ Bid Form and the terms and conditions of sale will be available with the Branch/Corporate Office.</p> <p>Branch Office: Bp-49, First Floor, Neelam Bata Road, Nit Faridabad-121001, E-44, Ground Floor, Industrial Area, Sector-3, Near Sec 16 Metro Station, Noida, Uttar Pradesh -201301, Kamal Dua, 84-r, First Floor, Opposite Lal Tanky Market, Modern Town, Panipat, Haryana, Pin- 132103, Shop No.6, Upper Ground Floor, C.r. Mall, Church Road, Rang Nagar Colony, Agr 282002, Plot No. 282, Laxman Das Complex, Ground Floor, Near Central Bank of India, Deokali, Faizabad - 224001, Uttar Pradesh, No. 18, 1st Floor, District Central, Sanjay Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201002,, Hall No-1, First Floor Parsvnath Plaza-II, Plot No-2, Neelgiri Commercial Center, Mansarovar Scheme, Delhi- Moradabad Road, Moradabad-UP 244001, 173, Nehru Nagar, First Floor, B.s.m. Chowk, Roorkee - 247667, 59, D/1d2, Civil Line, Second Floor, Above Bata Showroom, Rudrapur-263513, 1st Floor, Sec 12 Main Market, Sector 14, Sonapat -131001</p> <p>2) The immovable property shall not be sold below the Reserve Price. 3) All the bids/ tenders submitted for the purchase of the above property/s shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above. EMD amount favouring "India Shelter Finance Corporation Limited". The EMD amount will be return to the unsuccessful bidder after auction. 4) The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that he/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. It shall be the discretion of the Authorised Officer to decline/ acceptance of the highest bid when the price offered appears inadequate as to make it inadvisable to do so. 5) The prospective bidders can inspect the property on 28-01-2026 between 11.00 AM and 5.00 PM with prior appointment. 6) The person declared as a successful bidder shall, immediately after the declaration, deposit 25% of the amount of purchase money/highest bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24 Hrs. and in default of such deposit, the property shall forthwith be put to fresh auction/ sale by private treaty. 7) In case the initial deposit is not made, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first day after the 15th day. 8) In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/ sale by private treaty. The deposit including EMD shall stand forfeited by India Shelter Finance Corporation Ltd. and the defaulting purchaser shall lose all claim to the property. 9) The above sale shall be subject to the final approval of ISFC, interested parties are requested to verify/confirm the statutory and other dues like Sales/Property tax, Electricity dues, and society dues, from the respective departments/ offices. The Company does not undertake any responsibility of payment of any dues on the property. 10) TDS @ 1%, if any, shall be payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposited by the highest bidder in the PAN of the company and the copy of the challan shall be submitted to the company. 11) Sale is strictly subject to the terms and conditions incorporated in this advertisement and into the prescribed tender form. 12) The successful bidder/purchaser shall bear all stamp duty, registration fees, and incidental expenses for getting sale certificate registered at the appropriate office. The Authorised Officer has the absolute right to accept or reject the bid or adjourn / postpone / cancel the tender without assigning any reason therefor and also to modify any terms and conditions of this sale without any price. 14) Interested bidders may contact Mr. Sudhir Tomar at Mob. No. + 91 98184 60101</p>			
15 DAYS SALE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR/MORTGAGOR			
<p>The above mentioned Borrowers/Mortgagors/guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned in Demand Notice under section 13(2) with at date of interest and expenses before the date of Auction failing which the property shall be auctioned and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost from you.</p>			
Date: 15.01.2026 Place: DELHI/NCR	For India Shelter Finance Corporation Ltd Authorised officer. Mr. Sudhir Tomar at Mob. No. + 91 98184 60101		

खेल

सार समाचार

मारिन भारतीय महिला हॉकी टीम से जुड़े

नई दिल्ली, भाषा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच शोर्ड मारिन एक बार फिर से राष्ट्रीय टीम के साथ मुख्य कोच के तौर पर जुड़ गये है। मारिन का इस टीम के साथ 2017 से 2021 तक का कार्यकाल सफल रहा था। मारिन को करीब दो सप्ताह पहले दोबारा इस पद पर नियुक्त किया गया था।
तोक्यो ओलंपिक में टीम को ऐतिहासिक चौथा स्थान दिलाने के बाद यह उनकी भारतीय महिला टीम के कोचिंग प्रणाली में उनकी वापसी है। हॉकी इंडिया ने मारिन की तस्वीर साझा की जिसमें उनका स्वागत देश के शीर्ष खेल अधिकारियों और महासंघ के प्रशासकों द्वारा किया गया। मारिन ने भी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, नयी ऊर्जा के साथ भारत वापस। इस 51 साल के कोच को अपने काम में मटियास विला का सहयोग मिलेगा, जो टीम के एनालिटिकल (विश्लेषणात्मक) कोच होंगे।

पाकिस्तान की महिला टीम के ‘मेंटोर’ बने वहाब रियाज

लाहौर, भाषा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता वहाब रियाज को अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय महिला टीम का ‘मेंटोर’ (मार्गदर्शक) नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बुधवार को कहा कि वहाब टीम के ‘मेंटोर’ होंगे और उन्हें पूर्व खिलाड़ियों इमरान फरहत और अब्दुल रहमान सहित कोचिंग स्टाफ का सहयोग मिलेगा। पाकिस्तान की महिला टीम की कप्तानी फातिमा सना करेगी। भारत और श्रीलंका में पिछले साल नवंबर में खेले गए आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में मिली करारी हार के बाद यह टीम का पहला दौरा होगा। पाकिस्तान आठ टीमों की प्रतियोगिता में आखिरी स्थान पर रहा था जिसके बाद मुख्य कोच मोहम्मद वसीम को बर्खास्त कर दिया गया था।

संथिलकुमार और टंडन ने जीत से शुरुआत की

डेट्रॉयट, भाषा। मोजूदा पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन वेलवन संथिलकुमार और रामित टंडन ने यहां खेली जा रही डीआर 21 मोटर सिटी ओपन स्व्वाश प्रतियोगिता में जीत के साथ अपने नए सत्र की शुरुआत की। विश्व रैंकिंग में 46वें स्थान पर काबिज संथिलकुमार ने इंग्लैंड के सैमुअल ओसबोर्न वाइल्ड को आसानी से 11-9, 11-5, 11-6 से हराया। विश्व रैंकिंग में 41वें स्थान पर काबिज टंडन को भी किसी तरह की मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने पहले दौर के मैच में इंग्लैंड के टॉम वाल्श को 11-8, 11-4, 8-11, 11-4 से पराजित किया।

आर्थिकी/परदेश

लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 245 अंक फिसला

मुंबई ■ भाषा/डेस्क
वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ने के बीच आईटी और चुनिंदा बैंक शेयरों में बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 245 अंक टूट गया जबकि निफ्टी में 66 अंक की गिरावट आई।

कारोबारियों ने कहा कि विदेशी पूंजी की निकासी लगातार जारी रहने और अमेरिकी शुल्क संबंधी नई अनिश्चितताओं ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 244.98 अंक यानी 0.29 प्रतिशत गिरकर 83,382.71 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 442.49 अंक फिसलकर 83,185.20 अंक पर आ गया था।

एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 66.70 अंक यानी 0.26 प्रतिशत टूटकर 25,665.60 अंक पर आ



गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एशियन पेंट्स, मारुति, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, टाटा स्टील, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में तेजी रही। विश्लेषकों ने कहा कि बाजार में चुनिंदा शेयरों की लिवाली और धातु, जिस और ऊर्जा शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी से सूचकांकों की गिरावट सीमित रही।

थोक महंगाई दिसंबर में आठ महीने के उच्च स्तर 0.83 प्रतिशत पर

नई दिल्ली ■ भाषा/डेस्क
थोक मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने वृद्धि जारी रही और दिसंबर 2025 में यह आठ महीने के उच्च स्तर 0.83 प्रतिशत पर पहुंच गई। खाद्य पदार्थों, गैर-खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में मासिक आधार पर बढ़ोतरी से इसमें वृद्धि दर्ज की गई। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में शून्य से नीचे 0.32 प्रतिशत और अक्टूबर में शून्य से नीचे 1.02 प्रतिशत रही थी। दिसंबर 2024 में थोक मुद्रास्फीति 2.57 प्रतिशत थी।

उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा, मुद्रास्फीति बीते महीने मुख्य रूप से अन्य विनिर्माण, खनिजों, मशीनरी एवं उपकरणों के विनिर्माण, खाद्य उत्पादों के निर्माण और



वस्त्र आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी। डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में खाद्य पदार्थों की कीमतें 0.43 प्रतिशत कम हुईं जबकि नवंबर में यह दर 4.16 प्रतिशत थी। सब्जियों की महंगाई दर दिसंबर में 3.50 प्रतिशत की गिरावट आई

सिंधू इंडिया ओपन के पहले दौर से बाहर, श्रीकांत, प्रणय और मालविका जीते

सिंधू वियतनाम की थुई लिन एनगुएन के खिलाफ पहला गेम जीतने के बावजूद कड़े मुकाबले में हार गईं।

नई दिल्ली ■ भाषा/डेस्क
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू बुधवार को यहां इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के महिला एकल के पहले दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं जबकि किदांबी श्रीकांत, एच एस प्रणय और मालविका बंसोड़ दूसरे दौर में पहुंच गए। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू वियतनाम की थुई लिन एनगुएन के खिलाफ पहला गेम जीतने के बावजूद कड़े मुकाबले में हार गईं जबकि श्रीकांत ने भारत के ही थारुन मानेपल्ली को हराया। दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी और 2017 की चैंपियन सिंधू को एक घंटा और आठ मिनट चले पहले दौर के मुकाबले में दुनिया की 23वें नंबर की वियतनाम की खिलाड़ी

डब्ल्यूपीएल में हरमनप्रीत कौर के 1000 रन पूरे

नवी मुंबई ■ वार्ता/डेस्क
मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में 1000 रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। हरमनप्रीत कौर ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मंगलवार को डब्ल्यूपीएल मैच में नाबाद 71 बनाकर यह उपलब्धि अपने नाम की।

प्लेयर ऑफ द मैच हरमन ने 43 गेंदों की अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए। हरमन यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गयी हैं। उनसे पहले उनकी टीम साथी नेट



शिवर ब्रंट को यह उपलब्धि हासिल थी। शिवर ब्रंट के 31 मैचों में 1101 रन और हरमन के 30 मैचों में 1016 रन हैं। यह हरमन का डब्ल्यूपीएल में 10वां अर्धशतक था और उनके डब्ल्यूपीएल में अब सर्वाधिक अर्धशतक हो गए हैं। शिवर ब्रंट और मेग लेनिंग नौ-नौ अर्धशतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

चांदी 15,000 रुपये उछलकर 2.86 लाख के नए शिखर पर

नई दिल्ली, भाषा। चांदी की कीमत बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 15,000 रुपये की जबर्दस्त उछाल के साथ 2,86,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी जबकि सोने की कीमत भी वैश्विक बाजार में मजबूत रुझानों के अनुरूप 1,46,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्रीफा संघ ने कहा कि चांदी ने लगातार चोथे दिन जोरदार तेजी जारी रखी। मंगलवार को 2,71,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई चांदी बुधवार को 5.5 प्रतिशत यानी 15,000 रुपये की अभूतपूर्व तेजी के साथ 2,86,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों समेत) पर पहुंच गई। यह चांदी के भाव का अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पिछले चार सत्रों में ही यह धातु 17.45 प्रतिशत यानी 42,500 रुपये की जबर्दस्त बढ़त हासिल कर चुकी है। आठ जनवरी को चांदी की कीमत 2,43,500 रुपये थी। सर्रीफा कारोबारियों ने कहा कि चांदी के हाल के समय में सोने की तुलना में बेहतर रिटर्न दिया है। वर्ष 2026 की शुरुआत से अब तक चांदी ने लगभग 47,000 रुपये प्रति किलो यानी 20 प्रतिशत की तेजी दिखाई है।

जबकि नवंबर में यह 20.23 प्रतिशत थी।

वित्तीय परामर्श कंपनी बार्कलेज इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री आस्था गुडवानी ने कहा कि दिसंबर में खाद्य पदार्थों में महंगाई में कम दर से कमी एवं विनिर्माण उत्पादों में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण थोक मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।

उन्होंने कहा, हमें थोक मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि जारी रहने का अनुमान है। विनिर्मित उत्पादों के मामले में मुद्रास्फीति नवंबर 2025 के 1.33 प्रतिशत के मुकाबले दिसंबर में 1.82 प्रतिशत रही। गैर-खाद्य वस्तुओं की श्रेणी की मुद्रास्फीति दिसंबर में 2.95 प्रतिशत रही जबकि नवंबर में यह 2.27 प्रतिशत थी। ईंधन तथा बिजली क्षेत्रों में महंगाई दर में गिरावट जारी रही और यह 2.31 प्रतिशत रही जबकि नवंबर में यह 2.27 प्रतिशत थी।



एकतरफा जीत दर्ज की और फिर निर्णायक गेम में थारुन की कड़ी चुनौती से पार पाते हुए जीत दर्ज की।

श्रीकांत अगले दौर में फ्रांस के पांचवें वरीय क्रिस्टो पोपोव से भिड़ेंगे जिन्होंने चीनी ताइपे के जू वेई वेंग को 13-21, 21-18, 21-19 से हराया। प्रणय ने हांगकांग

के ली चेयुक यिउ को 41 मिनट में 22-20, 21-18 से हराया। यह भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में आठवें वरीय सिंगापुर के लोह कीन येव के खिलाफ उतरेगा जिन्होंने चीन के वेंग झेंग शिंग को 23-21, 19-21, 21-14 से शिकस्त दी। पिछले सत्र के दूसरे हाफ में चोटों से परेशान रही

कोहली बने आईसीसी वनडे रैंकिंग के नंबर एक बल्लेबाज

दुबई ■ वार्ता/डेस्क
शानदार फॉर्म में चल रहे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फिर से ताजा आईसीसी पुरुष एकदिवसीय रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गये है। यहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय में भारत की चार विकेट की जीत के बाद आईसीसी पुरुष रैंकिंग में नंबर वन स्थान फिर से हासिल कर लिया है। इस मैच में कोहली के 91 गेंदों में 93 रनों की मदद से मेजबान टीम ने लक्ष्य का पीछा किया और वह भारत के महान सचिन तेंदुलकर के करीब पहुंच गए और ऑल-टाइम मेन्स



इंटरनेशनल रन-स्कोरिंग टेबल में दूसरा स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया में 50 ओवर की सीरीज के बाद से कोहली शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने अपनी पिछली पांच पारियों में 74 नाबाद, 135, 102, 65 नाबाद और 93 रन बनाए हैं। 37 साल के कोहली जुलाई 2021 के बाद पहली बार बल्लेबाजी

मालविका बंसोड़ ने भी कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे की पाइ यु पो को 51 मिनट में 21-18, 21-19 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। अगले दौर में उनकी भिड़ंत दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हेंन युइ से होगी। हेंन युइ ने पहले दौर में चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को 18-21, 21-13, 21-17 से हराया। तन्वी शर्मा को हालांकि चीन की दूसरी वरीय वेंग झी यीन को कड़ी टक्कर देने के बावजूद एक घंटे और नौ मिनट में 20-22, 21-18, 13-21 से हार झेलनी पड़ी।

सिंधू ने मुकाबले की अच्छी शुरुआत करते हुए 3-0 की बढ़त बनाई। एनगुएन ने कुछ अच्छे अंक जुटाए लेकिन सहज गलतियां करते हुए कई शॉट बाहर भी मारे जिससे सिंधू ने

स्कोर 6-4 किया। एनगुएन ने स्कोर 6-6 किया लेकिन उन्हें शटल को नियंत्रित करने में दिक्कत हो रही थी और उनके शॉट लगातार बाहर गिर रहे थे और नेट पर उलझ रहे थे जिससे सिंधू ब्रेक तक 11-7 की बढ़त बनाने में सफल रही।

एनगुएन ने वापसी करते हुए सिंधू पर दबाव बनाने की कोशिश की और लगातार चार अंक के साथ स्कोर 11-12 किया। एनगुएन लगातार अंक जुटाती रही लेकिन सिंधू ने बढ़त बरकरार रखते हुए स्कोर 18-16 किया। वियतनाम की खिलाड़ी ने लगातार तीन अंक के साथ 20-19 के स्कोर पर गेम प्वाइंट हासिल किया लेकिन इसके बाद शॉट बाहर मारकर सिंधू को बराबरी हासिल करने का मौका दे दिया।

परदेश खास

ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं : डोनाल्ड ट्रंप

नुक(ग्रीनलैंड ■ एपी/डेस्क
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों की मेजबानी के लिए आयोजित वार्ता से कुछ घंटे पहले की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में यह दलील दोहराई कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, इसे हासिल करने के लिए नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए अन्यथा रूस या चीन इसे हासिल कर लेंगे और यह नहीं होने जा रहा है। ट्रंप ने लिखा, ग्रीनलैंड के



अमेरिका के हाथों में आने से नाटो कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बन जाएगा। इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है। यह भू-राजनीतिक उथल-पुथल के केंद्र में है क्योंकि ट्रंप इस पर अमेरिका के नियंत्रण पर अड़े हुए हैं जबकि ग्रीनलैंड वासियों का कहना है कि

बांग्लादेश में मतदान अभियान 22 जनवरी से शुरू होगा

ढाका, भाषा। बांग्लादेश में 22 जनवरी से कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव प्रचार शुरू होगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे, जो अगस्त 2024 में छात्रों के हिसक प्रदर्शन में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद पहले चुनाव होंगे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, निर्वाचन अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ अपील का निपटारा 10 से 18 जनवरी के बीच किया जाएगा। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 20 जनवरी है। निर्वाचन अधिकारी 21 जनवरी को उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित करेंगे और चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव प्रचार 22 जनवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी को सुबह 7:30 बजे तक चलेगा। मतदान 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। चुनाव आयोग (ईसी) 22 जनवरी से आठ लाख से अधिक पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना भी शुरू करेगा, जो 12 फरवरी को जनमत संग्रह के साथ होने वाले आम चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है।

डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेता ट्रंप के खिलाफ एकजुट हुए

नुक (ग्रीनलैंड), एपी। रणनीतिक रूप से अहम आर्कटिक द्वीप पर कब्जा करने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान के खिलाफ डेनमार्क और उसके क्षेत्र ग्रीनलैंड के नेता एकजुट हो गए हैं। हालांकि, इस मुद्दे पर वाशिंगटन में इन देशों के नेताओं के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री की बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।

इस विशाल द्वीप पर कब्जा करने या इसे अलग होने के लिए मजबूर करने का अमेरिकी प्रयास ट्रांसअटलांटिक गठबंधन को तोड़ देगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुरक्षा का एक मुख्य आधार रहा है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जैस फ्रेडरिक नीलसन ने अपनी एकजुटता पर जोर देने की कोशिश की।

यह क्षेत्र बिकाऊ नहीं है।

व्हाइट हाउस ने जबरन इस आर्कटिक द्वीप पर कब्जा करने की आशंका से इनकार नहीं किया है।

वेंस का बुधवार को वाशिंगटन में डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन और उनके ग्रीनलैंड के समकक्ष क्विवियन मोट्ज़फेल्ड से इस पूरे मुद्दे पर बैठक करने का कार्यक्रम है। नुक निवासि एवं 22 वर्षीय छात्रा तुता मिकेलसन ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारियों को ‘पीछे हटने’ का संदेश मिल जाएगा। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के लिए ‘अत्यंत महत्वपूर्ण’ है।

<div>बिहार स्पोज़ आयरन लिमिटेड</div> <div>सीआईएन: L27106JH1982PLC001633</div> <div>पंजीकृत कार्यालय: उमेश नगर, चाँदिब, जिला सरायकेला–खरसावा, झारखंड–832401</div> <div>फ़ोन+91 9956542302 ई–मेल: companysecretary@bsil.org.in</div> <div>वेबसाइट: www.bsil.org.in</div>
<div><div></div>सूचना</div> <div>सेबी सर्कुलर नंबर SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/ P/CIR/2025/97, तारीख 2 जुलाई 2025 के संदर्भ में, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विज्ञो खोली गई थी, ताकि उन फिजिकल शेयरों के ट्रांसफर रिवेस्ट को आसान बनाया जा सके जिनके ट्रांसफर डीड मूल रूप से 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी या किसी अन्य कारण से खारिज / वापस कर दिए गए थे या उन पर ध्यान नहीं दिया गया था।। ऊपर दी गई जानकारी के संबंध में, हमारे आरटीए को 23-12-2025 को 100 शेयरों वाली एक ट्रांसफर डीड मिली है, जिसकी डिटेल्स इस प्रकार हैं: ट्रांसफर करने वाले का नाम – वीआर. एस. वसंता, फोलियो नंबर 93965, सर्टिफिकेट नंबर 65752, डिस्ट्रिक्टिव नंबर 28913101 – 28913200, ट्रांसफर लेने वाले का नाम – इंद्र कुमार भारगी। आम जनता / शेयरधारकों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त ट्रांसफर पर कोई आपत्ति है, तो कृपया इस नोटिस के पब्लिकेशन के 10 दिनों के भीतर सबूत के साथ लिखित रूप में हमारे आरटीए मेंसेर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगिर, लोकल शांतिग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली- 110062 को beetalalta@gmail.com पर या कंपनी को companysecretary@bsil.org.in पर सूचित करें, नहीं तो ट्रांसफर ट्रांसफरों के पक्ष में कर दिया जाएगा।</div>
<div><div></div>बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के लिए हस्ता. /—</div> <div>दिनांक: 14.01.2026</div> <div>स्थान: नई दिल्ली</div> <div>विमल प्रसाद गुप्ता</div> <div>कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी</div>